



### ओनटैरियो सरकार ने, दूसरी प्रोविंसिअल स्टेट ऑफ एमरजेंसी की घोषणा की

पूरे प्रांत में 8 अप्रैल से स्टे-एट-होम ऑर्डर

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (7 अप्रैल, 2021) – आज, ओनटैरियो सरकार (Government of Ontario) ने, एमरजेंसी मैनेजमेंट एंड सिविल प्रोटेक्शन एक्ट (ई.एम.सी.पी.ए.) (Emergency Management and Civil Protection Act) (EMCPA) के अंतर्गत, तीसरी एमरजेंसी की स्थिति घोषित करने के साथ-साथ, 8 अप्रैल, 2021 से पूरे प्रांत में स्टे-एट-होम ऑर्डर की घोषणा की, जो रीजन ऑफ पील (Region of Peel) सहित, ओनटैरियो के लिए कम से कम चार सप्ताह तक लागू रहेगा।

स्टे-एट-होम ऑर्डर की शर्त है कि हर कोई, ग्रासरी स्टोर या फार्मसी में जाने, हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंच, एक्सरसाइज या जरूरी काम के लिए जाने जैसे, जरूरी कामों के लिए बाहर जाने को छोड़कर बाकी समय घर में ही रहे।

इस ऑर्डर तथा पब्लिक हेल्थ की और पाबंदियों का उद्देश्य, लोगों के आने-जाने को सीमित करना और सगे पारिवारिक सदस्यों के अलावा अन्य लोगों के साथ, रोज़ाना संपर्कों की संख्या को कम करना है। जरूरी कामों के लिए बाहर जाने को सीमित करने के अलावा, सभी कारोबारियों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि कोई भी कर्मचारी, जो घर से काम कर सकता है, वह घर से ही काम कर रहा है।

#### रिटेल

इसके अलावा, पूरे प्रांत में एमरजेंसी ब्रेक (provincewide emergency brake) के अंतर्गत गैर-जरूरी रिटेल के लिए, पब्लिक हेल्थ और कार्यस्थल संबंधी सुरक्षा उपायों को भी और सख्त बनाया जा रहा है। उपायों में शामिल हैं, परंतु इन तक सीमित नहीं हैं:

- अधिकतर रिटेलरों को केवल कर्बसाइड पिकअप (पगडंडी के किनारे से वस्तुएं लेना) और डिलीवरी को, मुलाकात बुक करके ही सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच में ही चलने तक सीमित करना, जिसमें रोज़ाना के ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सामान की डिलीवरी की अनुमति तथा अन्य पाबंदियां;
- शॉपिंग मॉल के अंदर केवल एक नियत जगह और शॉपिंग मॉल के बाहर असीमित संख्या में नियत जगहों के साथ, शॉपिंग मॉल्स तक पहुंच को सीमित खास उद्देश्यों तक सीमित करना, जिनमें शामिल हैं, मुलाकात बुक करके कर्बसाइड पिकअप और डिलीवरी तक पहुंच, साथ ही अन्य पाबंदियां;
- डिस्काउंट वाले और बिग बॉक्स स्टोर्स (बहुत बड़े स्टोर, जहां सभी वस्तुएं एक ही जगह पर मिलती हैं) में व्यक्तिगत रिटेल बिक्री को, केवल ग्रासरी वस्तुओं, पालतू पशु की देखभाल हेतु सामान, घरेलू सफाई के सामान, फार्मास्युटिकल वस्तुओं, हेल्थ केयर की वस्तुओं और निजी देखभाल की वस्तुओं तक ही सीमित करना;
- निम्नलिखित स्टोर्स को केवल मुलाकात बुक करके ही व्यक्तिगत रिटेल के लिए चलाने की अनुमति देना और यह 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमा के अंतर्गत होगा, साथ ही रोज़ाना के ग्राहकों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक सामान की डिलीवरी की अनुमति के साथ, सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच ही चलने तक सीमित करना:
  - सेफ्टी सप्लाइ स्टोर (सुरक्षा संबंधी सामान के स्टोर);



- वे कारोबार, जो मुख्य रूप से सहायक डिवाइसें, सहायक सामग्रियां या सप्लाइज, मोबिलिटी डिवाइसें, सहायक सामग्रियां या सप्लाइज या मेडिकल डिवाइसें, सहायक सामग्रियां या सप्लाइज बेचते हैं, किराए पर देते हैं या इनकी मुरम्मत करते हैं;
  - रेंटल और लीजिंग सेवाएं, जिनमें शामिल हैं, ऑटोमोबाइल, कमर्शियल और लाइट इंडस्ट्रियल मशीनरी और उपकरण किराए पर देना;
  - ऑप्टिकल स्टोर, जो लोगों को प्रिस्क्रिप्शन चश्मे बेचते हैं;
  - वे कारोबार, जो मोटर वाहन, नावें और अन्य वाटरक्राफ्ट बेचते हैं;
  - वाहन और उपकरण मुरम्मत और जरूरी रखरखाव तथा उपकरण रेंटल सेवाएं; और
  - टेलिकम्युनिकेशंस प्रोवाइडर या सर्विस के द्वारा चलाए जाने वाले रिटेल स्टोर, जो लोगों को केवल सेलफोन खरीदने या मुरम्मत के लिए या तकनीकी सहायता के लिए परिसर में दाखिल होने की अनुमति दे सकते हैं।
- आउटडोर गार्डन सेंटर्स और प्लांट नर्सरीज को, 25 प्रतिशत कैपेसिटी सीमा के साथ चलने की अनुमति देना, जो लोगों को सामान बेचती हैं और उन्हें सुबह 7 बजे से रात 8 बजे के बीच ही चलने तक सीमित करना।

तीसरी प्रोविसियल एमरजेंसी के बारे में अधिक जानकारी के लिए [यहां \(here\)](#) पढ़ें।

### सिटी की सेवाएं और फैसिलिटीज

#### *सिटी हॉल और कार्पोरेट फैसिलिटीज*

सिटी हॉल (City Hall) और कार्पोरेट फैसिलिटीज, केवल मुलाकात बुक करके व्यक्तिगत सेवाओं के लिए खुली रहेंगी। बिना मुलाकात बुक किए आने की अनुमति नहीं है। मुलाकात बुक करने के लिए [www.brampton.ca/skiptheline](http://www.brampton.ca/skiptheline) पर जाएं।

#### *सिटी के रेक्रिएशन सेंटर*

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की सभी रेक्रिएशन फैसिलिटीज, जनता के लिए बंद रहेंगी और इनडोर प्रोग्राम, अगले नोटिस तक स्थगित ही रहेंगे।

#### *वर्चुअल प्रोग्राम*

##### वर्चुअल फिटनेस

निवासियों को कुशल फिटनेस इंस्ट्रक्टर के साथ 30 मिनट के मुफ्त लाइव वर्कआउट की, इंस्ट्रक्टर के नेतृत्व वाली वर्चुअल फिटनेस क्लासों में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

##### 55 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए वर्कशॉप्स

ब्रैम्पटन के 55 वर्ष के और इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग, घर से ही आराम से की जाने वाली मुफ्त वर्चुअल वर्कशॉप्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। हिस्सा लेने वालों के पास, सुरक्षित और संगठित वातावरण में लोगों से मिलने-जुलने, नए दोस्त बनाने तथा ऑनलाइन, दूसरों से जुड़ने का अवसर होगा।



भागीदारी वाली वर्चुअल गतिविधियां और वर्कशॉप्स

यह सीरीज, विकलांग और अन्य असामान्यताओं वाले भागीदारों के लिए, गतिविधियों से जुड़ने, कुछ नया सीखने और अपनी उम्र के बच्चों के लिए मज़बूत दोस्ती करने का शानदार अवसर है।

रजिस्टर कैसे करना है, इस बारे में विवरणों सहित, वर्चुअल पेशकशों संबंधी अधिक जानकारी, [www.brampton.ca/recreation](http://www.brampton.ca/recreation) पर प्राप्त की जा सकती है।

### रेक एट होम

घर में ही, स्व-निर्देशित ऑनलाइन आर्ट्स और क्राफ्ट्स के ट्यूटोरियल्स के साथ क्रियाशील और व्यस्त रहें, जो 24/7 सुलभ है! सीखें कि ओरगैमी हार्ट कैसे बनाए जाते हैं, अपने सुंदर लिखावट (कैलीग्राफी) कौशलों का अभ्यास करें। ब्रैम्पटन रेक्रीएशन (Brampton Recreation) के द्वारा प्यार से तैयार की गई, रेक एट होम (Rec At Home) गतिविधियों तक [यहां \(here\)](#) पहुंच प्राप्त करें।

### आवश्यक चेहरा ढकना

आवश्यक चेहरा ढकना (मैन्डेटरी फेस कवरिंग्स) बाइ-लॉ (Mandatory Face Coverings By-law) के अंतर्गत, ब्रैम्पटन में सभी इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, गैर-मेडिकल मास्क (कपड़े के बने साधारण मास्क) पहनना या चेहरे को ढकना जरूरी है। सार्वजनिक संस्थानों और कारोबारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके नियंत्रण वाली इनडोर सार्वजनिक जगहों पर, सभी लोग मास्क पहन रहे हैं या चेहरा ढक रहे हैं।

बाइ-लॉ कुछ व्यक्तियों को छूट देता है। इनमें शामिल हैं, वे व्यक्ति, जो मेडिकल कारणों से मास्क नहीं पहन सकते या चेहरा नहीं ढक सकते; दो वर्ष से कम उम्र के बच्चे; एमरजेंसी ऑर्डर्स (Emergency Orders) के अनुसार एथलेटिक गतिविधि में शामिल व्यक्ति। अधिक जानकारी के लिए: [www.brampton.ca/masks](http://www.brampton.ca/masks) पर जाएं।

अधिक जानकारी और सेवा अनुरोधों के लिए, निवासी और कारोबारी 311 पर फोन कर सकते हैं, [www.311brampton.ca](http://www.311brampton.ca) पर जा सकते हैं या 311 मोबाइल ऐप का प्रयोग कर सकते हैं।

### लिंक

इनके बारे में अधिक जानें:

- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन कोविड-19 प्रोग्रामिंग और सेवा अपडेट \(City of Brampton COVID-19 programming and service updates\)](#)
- [सिटी ऑफ ब्रैम्पटन – क्या खुला है, क्या बंद है \(City of Brampton – what's open, what's closed\)](#)
- [कोविड-19 के लक्षण \(COVID-19 symptoms\)](#)
- [कोविड-19 वैक्सीन \(COVID-19 vaccine\)](#)



- ब्रैम्पटन में टेस्टिंग (Testing in Brampton)
- खुद को दूसरों से अलग कैसे रखना है (How to self-isolate)
- कोविड-19 के दौरान कारोबारों और कार्यस्थलों को सुरक्षित रखना (Keeping businesses and workplaces safe during COVID-19)
- पील में कोविड-19 के केस (Cases of COVID-19 in Peel)

-30-

### मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | [Monika.Duggal@brampton.ca](mailto:Monika.Duggal@brampton.ca)